



COM 304

B.Com. Vth SEMESTER EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Goods And Services Tax-II)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the OMR
Sheet)

Date (तिथि) : _____

1323

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures)

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Any input Tax credit omitted to be taken in a financial year can be taken on or before :
- (A) Filing return for September of next financial year
- (B) Annual return of the financial year
- (C) (A) or (B) whichever is earlier
- (D) (A) or (B) whichever is later
2. Input Tax credit is the credit available of taxes paid on :
- (A) Inward supply
- (B) Outward supply
- (C) Export of Goods & services
- (D) None of the above
3. Input Tax credit is to be availed only if :
- (A) The person is a registered supplier
- (B) There is a proper tax invoice
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of the above
1. किसी वित्तीय वर्ष में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना छूट गया हो तो उसे या उससे पहले लिया जा सकता है :
- (A) अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर के लिए रिटर्न दाखिल करना
- (B) वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न
- (C) (A) या (B) जो भी पहले हो
- (D) (A) या (B) जो भी बाद में हो
2. इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए करों का उपलब्ध क्रेडिट है :
- (A) आवक आपूर्ति
- (B) जावक आपूर्ति
- (C) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी लेना है जब :
- (A) व्यक्ति एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है
- (B) एक उचित कर बीजक है
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. Input Tax credit cannot be availed against :

- (A) CGST
- (B) SGST
- (C) IGST
- (D) Composition tax paid by supplier

5. Input Tax credit should be reversed if :

- (A) The relevant invoice is not paid within 180 days
- (B) The relevant goods are destroyed by fire
- (C) The relevant goods are stolen
- (D) All of the above

6. GST Registration is :

- (A) Aadhaar based
- (B) Passport based
- (C) Pan based
- (D) Credit card based

7. Exemption from registration is available to :

- (A) Central & state Government departments
- (B) Agriculturists
- (C) Person who are required to pay tax under reverse charge
- (D) Input service Distributor

4. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सकता :

- (A) सी०जी०एस०टी०
- (B) एस०जी०एस०टी०
- (C) आई०जी०एस०टी०
- (D) आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कम्पोजिशन कर

5. इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया जाए, यदि:

- (A) संबंधित बीजक का भुगतान 180 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है
- (B) संबंधित सामान आग से नष्ट हो गया है
- (C) संबंधित सामान चोरी हो गया है
- (D) उपरोक्त सभी

6. जी०एस०टी० पंजीकरण है :

- (A) आधार आधारित
- (B) पासपोर्ट आधारित
- (C) पैन आधारित
- (D) क्रेडिट कार्ड आधारित

7. पंजीकरण से छूट उपलब्ध है :

- (A) केन्द्र और राज्य सरकारी विभागों को
- (B) कृषक
- (C) वह व्यक्ति जिसे रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है
- (D) इनपुट सेवा वितरक

8. IGST is payable when the supply is :
- (A) Interstate
(B) Intrastate
(C) Intra UT
(D) All of the above
9. A person is having multiple business requires registration :
- (A) Single
(B) Each business separately
(C) One Registration for one person
(D) Only one Registration for one PAN
10. When the value of goods or services invoiced earlier requires upward revision :
- (A) Debit note is issued
(B) Credit note is issued
(C) Bill of supply is issued
(D) Revised Tax invoice is issued
8. आई०जी०एस०टी० तब देय होता है जब आपूर्ति होती है :
- (A) अंतरराज्यीय
(B) राज्यान्तरिक
(C) इंद्रा यू टी
(D) उपरोक्त सभी
9. एक व्यक्ति के पास एकाधिक व्यवसाय होने पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है :
- (A) एक ही
(B) प्रत्येक व्यवसाय अलग से
(C) एक व्यक्ति के लिए एक पंजीकरण
(D) एक पैन के लिए केवल एक पंजीकरण
10. जब पूर्व में चालान किए गए सामान या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता हो :
- (A) डेबिट नोट जारी किया जाता है
(B) क्रेडिट नोट जारी किया जात है
(C) आपूर्ति का बिल जारी किया जाता है
(D) संशोधित कर चालान जारी किया जाता है

11. When the value of goods or services invoiced earlier requires downward revision :
- (A) Debit note is issued
 (B) Credit note is issued
 (C) Bill of supply is issued
 (D) Revised Tax invoice is issued
12. GST number has :
- (A) 11 Digits
 (B) 15 Digits
 (C) 16 Digits
 (D) 9 Digits
13. Who is eligible for composition scheme ?
- (A) Whose turnover is less than 40 lakhs
 (B) Whose turnover is less than 75 lakhs
 (C) Whose turnover is less than 1.2 crores
 (D) Whose turnover is less than 1.5 crores
11. जब पूर्व में चालान किए गए सामान या सेवाओं के मूल्य में गिरावट की आवश्यकता हो :
- (A) डेबिट नोट जारी किया जाता है
 (B) क्रेडिट नोट जारी किया जाता है
 (C) आपूर्ति का बिल जारी किया जाता है
 (D) संशोधित कर चालान जारी किया जाता है
12. जी०एस०टी० नम्बर है :
- (A) 11 अंक
 (B) 15 अंक
 (C) 16 अंक
 (D) 9 अंक
13. कंपोजीशन स्कीम के लिए कौन पात्र है ?
- (A) जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम हो
 (B) जिसका टर्नओवर 75 लाख से कम हो
 (C) जिसका टर्नओवर 1.2 करोड़ से कम हो
 (D) जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो

14. Which input tax credit cannot be claimed against which output tax liability ?
- (A) IGST, SGST
(B) CGST, IGST
(C) SGST, IGST
(D) CGST, SGST
15. Input tax credit availability :
- (A) On receipt of goods
(B) On payment of taxes paid by supplier to Government
(C) Taken to manufacturing site or availed services
(D) None of the above
16. In the common portal, every claim of input tax credit of a registered person shall be credited to :
- (A) Electronic cash Ledger
(B) Electronic Credit Ledger
(C) Electronic Liabilities Register
(D) Electronic Credit Register
14. किस इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किस आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है ?
- (A) आई०जी०एस०टी०, एस०जी०एस०टी०
(B) सी०जी०एस०टी०, आई०जी०एस०टी०
(C) एस०जी०एस०टी०, आई०जी०एस०टी०
(D) सी०जी०एस०टी०, एस०जी०एस०टी०
15. इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता है :
- (A) माल की प्राप्ति पर
(B) आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को चुकता किए गए करों के भुगतान पर
(C) विनिर्माण स्थल पर ले जाए जाने या सेवाओं के लाभ उठाये जाने पर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
16. सामान्य पोर्टल में, पंजीकृत व्यक्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रत्येक दावे को क्रेडिट किया जाएगा :
- (A) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
(B) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
(C) इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर
(D) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर

17. Deposits towards tax, penalty, interest, fee or any other amount are credited into the _____ of a taxable person.
- (A) Electronic liability register
(B) Electronic credit ledger
(C) Electronic cash ledger
(D) Electronic credit register
18. Which of the following items are debited to electronic credit ledger?
- (A) Output tax
(B) Interest
(C) Penalty
(D) Fees
19. Matching of Input Tax credit on inward supply by recipient is undertaken with :
- (A) Monthly return filed by the supplier
(B) Outward supply filed by the supplier
(C) Invoices maintained by the supplier
(D) None of the above
17. कर, जुर्माना, ब्याज, शुल्क या किसी अन्य राशि की जमा राशि कर योग्य व्यक्ति के खाते में _____ जमा की जाती है।
- (A) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर
(B) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
(C) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
(D) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर
18. निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट की जाती है ?
- (A) आउटपुट टैक्स
(B) ब्याज
(C) जुर्माना
(D) शुल्क
19. प्राप्तकर्ता द्वारा आवक आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान किया जाता है :
- (A) आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल किया गया मासिक रिटर्न से
(B) आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर की गई जावक आपूर्ति से
(C) आपूर्तिकर्ता द्वारा बनाए गए चालान से
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

20. If there is Mis-Match of supplier's outward supply and recipient's claim for Input Tax credit on the same transaction :

- (A) It shall be added as output tax liability in the hands of receiver
- (B) It shall be reduced as output tax liability in the hands of receiver
- (C) It shall be increased as input tax credit in the hands of receiver
- (D) It shall be decreased as input tax credit in the hands of supplier

21. What does 'N' stand for in HSN?

- (A) Network
- (B) Nationalization
- (C) Nomenclature
- (D) Nomination

20. यदि एक ही लेनदेन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपूर्तिकर्ता की बाहरी आपूर्ति और प्राप्तकता के दावे में बेमेल है :

- (A) इसे प्राप्तकर्ता के हाथ में आउटपुट टैक्स दायित्व के रूप में जोड़ा जाएगा
- (B) इसे प्राप्तकर्ता के हाथों आउटपुट कर देयता के रूप में कम किया जाएगा
- (C) इसे प्राप्तकर्ता के हाथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में बढ़ाया जाएगा
- (D) यह आपूर्तिकर्ता के हाथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में समाप्त हो जाएगा

21. एच०एस०एन० में 'एन' का क्या मतलब है ?

- (A) नेटवर्क
- (B) राष्ट्रीयकरण
- (C) नामकरण
- (D) नामांकन

22. An E-commerce operator should get itself registered :

- (A) Irrespective of the threshold limit
- (B) If his aggregate turnover exceeds the threshold limit of ₹20 lakhs
- (C) If he is liable to collect tax at source and his aggregate turnover exceeds the threshold limit
- (D) If he is liable to collect tax at source

23. Which of the following is not included in aggregate turnover ?

- (A) Exempt supplies of goods or services or both
- (B) Export of goods or services or both
- (C) Inter-state supply of goods or services or both
- (D) Value of inward supplies on which tax is paid under reverse charge

22. एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को खुद को पंजीकृत करवाना चाहिए :

- (A) प्रारंभिक सीमा पर ध्यान दिए बिना
- (B) यदि उसका कुल कारोबार ₹20 लाख की सीमा से अधिक है
- (C) यदि वह स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है और उसका कुल कारोबार प्रारंभिक सीमा से अधिक है
- (D) यदि वह स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है

23. निम्नलिखित में से कौन सा कुल टर्नओवर में शामिल नहीं है ?

- (A) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की छूट वाली आपूर्ति
- (B) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात
- (C) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर राजीय आपूर्ति
- (D) आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान किया जाता है

24. Which of the following taxes will be levied on imports ?
- (A) CGST
(B) SGST
(C) IGST
(D) CGST and SGST
24. आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाएगा ?
- (A) सी०जी०एस०टी०
(B) एस०जी०एस०टी०
(C) आई०जी०एस०टी०
(D) सी०जी०एस०टी० और एस०जी०एस०टी०
25. Challan Identification Number (CIN) is of how many digits ?
- (A) 12
(B) 14
(C) 15
(D) 17
25. चालान पहचान संख्या कितने अंकों की होती है ?
- (A) बारह
(B) चौदह
(C) पंद्रह
(D) सत्रह
26. How many accounts are to be opened under (E-FPB) Electronic Focal Point Branch ?
- (A) 20
(B) 38
(C) 30
(D) 28
26. इलेक्ट्रॉनिक फोकल प्वाइन्ट ब्रान्च [ई-एफ०पी०बी०] के अन्तर्गत कितने खाते खोलने होते हैं ?
- (A) 20
(B) 38
(C) 30
(D) 28
27. The validity period of (CPIN) Common Portal Identification Number is :
- (A) 15 days
(B) 20 days
(C) 30 days
(D) 60 days
27. आम पोर्टल पहचान संख्या (सी०पी०आई०एन०) की वैधता अवधि है :
- (A) 15 दिन
(B) 20 दिन
(C) 30 दिन
(D) 60 दिन

28. The method of determining Prices under GST valuation rules is :
- (A) Comparative method
(B) Calculation method
(C) Residual method
(D) All of these
29. Goods and services Tax is calculated on :
- (A) Transaction value
(B) Taxable value
(C) At cost price
(D) Actual price
30. Will not be included in the calculation of taxable value :
- (A) Packing cost
(B) After sales service charges
(C) Design expenses
(D) Unloading charges paid by recipient
31. Goods and services Tax is levied on :
- (A) Receiving of services
(B) Operation of services
(C) Use of services
(D) Value of services supplied
28. जी०एस०टी० मूल्यांकन नियमों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करने की विधि है :
- (A) तुलनात्मक विधि
(B) गणना विधि
(C) अवशिष्ट विधि
(D) ये सभी
29. वस्तु एवं सेवा कर की गणना की जाती है :
- (A) संव्यवहार मूल्य पर
(B) कर योग्य मूल्य पर
(C) लागत मूल्य पर
(D) वास्तविक मूल्य पर
30. कर योग्य मूल्य की गणना में शामिल नहीं होगा :
- (A) पैकिंग लागत
(B) विक्रय पश्चात् सेवा चार्ज
(C) डिजाइन व्यय
(D) प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया गया माल उतराई व्यय
31. वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है :
- (A) सेवाओं की प्राप्ति पर
(B) सेवाओं के संचालन पर
(C) सेवाओं के उपयोग पर
(D) सेवाओं के आपूर्ति मूल्य पर

32. GSTR-8 is filed by :
- (A) Input service distributor
(B) E-commerce operator
(C) Non-resident taxpayer
(D) Casual taxable person
33. Who files GSTR-5 ?
- (A) Non-resident taxpayer
(B) E-commerce operator
(C) Casual Taxpayer
(D) None of these
34. E-way bill will be required if the value of goods is :
- (A) Worth at least ₹ 10000
(B) More than ₹ 25000
(C) More than ₹ 50000
(D) More than ₹ 25000 and less than ₹ 10,00,000
35. At least how many days in advance is the taxable person informed about audit of accounts?
- (A) 20 days
(B) 30 days
(C) 15 days
(D) 60 days
32. जी०एस०टी०आर०-8 दाखिल किया जाता है:
- (A) इनपुट सेवा वितरक द्वारा
(B) ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा
(C) अनिवासी विदेशी करदाता द्वारा
(D) आकस्मिक कर-योग्य व्यक्ति द्वारा
33. जी०एस०टी०आर०-5 कौन दाखिल करता है?
- (A) अनिवासी करदाता
(B) ई-कॉमर्स ऑपरेटर
(C) आकस्मिक करदाता
(D) इनमें से कोई नहीं
34. ई-वे बिल की आवश्यकता होगी यदि माल :
- (A) कम से कम ₹ 10000 का हो
(B) ₹ 25000 से अधिक हो
(C) ₹ 50000 से अधिक हो
(D) ₹ 25000 से अधिक किन्तु ₹ 10,00,000 से कम हो
35. कराधीन व्यक्ति को लेखा परीक्षण करने से कम-से-कम कितने दिन पहले सूचित किया जाता है ?
- (A) 20 दिन
(B) 30 दिन
(C) 15 दिन
(D) 60 दिन

36. The time limit beyond which is goods are not returned, the input sent for job work shall be treated as supply :
- (A) Three months
(B) Six months
(C) Nine months
(D) Twelve months
37. When a person closes the business, he has to file :
- (A) Form GSTR-8
(B) Form GSTR-9
(C) Form GSTR-10
(D) Form GSTR-11
38. Annual audit report is required to be certified by practicing :
- (A) CA
(B) CMA
(C) CA or CMA
(D) CA and CMA both
39. Every registered person whose aggregate turnover during a financial year _____ shall get his accounts audited.
- (A) Exceeds 2 crore rupees
(B) Exceeds 1.5 crore rupees
(C) Exceeds 1 crore rupees
(D) Exceeds 2.5 crore rupees
36. जॉब वर्क के लिए भेजा गया इनपुट कितने समय पश्चात वापस प्राप्त नहीं होने पर पूर्ति समझा जाएगा ?
- (A) 3 माह
(B) 6 माह
(C) 9 माह
(D) 12 माह
37. जब कोई व्यक्ति व्यापार बन्द कर देता है तो उसे प्रस्तुत करना होगा :
- (A) फार्म जी०एस०टी०आर०-8
(B) फार्म जी०एस०टी०आर०-9
(C) फार्म जी०एस०टी०आर०-10
(D) फार्म जी०एस०टी०आर०-11
38. वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रमाणित होना आवश्यक है :
- (A) सी०ए० द्वारा
(B) सी०एम०ए० द्वारा
(C) सी०ए० अथवा सी०एम०ए०
(D) सी०ए० और सी०एम०ए० दोनों के द्वारा
39. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार _____ उसके खातों का ऑडिट किया जाएगा।
- (A) 2 करोड़ रुपये से अधिक है
(B) 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है
(C) 1 करोड़ रुपये से अधिक है
(D) 2.5 करोड़ रुपये से अधिक है

40. Exemption limit for GST registration is :

- (A) Gross turnover or sales upto ₹40 lakhs
- (B) Gross turnover or sales is more than ₹20 lakhs but less than ₹50 lakhs
- (C) Gross turnover or sales is upto ₹25 lakh
- (D) Gross turnover or sales is more than ₹25 lakh

41. Penalty for not filing GST return on time is :

- (A) ₹200 per day
- (B) ₹300 per day
- (C) ₹100 per day
- (D) ₹500 per day

42. Maximum penalty for not filing returns within the prescribed time is :

- (A) ₹ 5000
- (B) ₹ 10000
- (C) ₹ 15000
- (D) ₹ 25000

40. जी०एस०टी० पंजीकरण की छूट प्राप्त सीमा है :

- (A) सकल आवर्त या बिक्री ₹40 लाख तक
- (B) सकल आवर्त या बिक्री ₹20 लाख से अधिक किन्तु ₹50 लाख से कम
- (C) सकल आवर्त या बिक्री ₹25 लाख तक
- (D) सकल आवर्त या बिक्री ₹25 लाख से अधिक

41. निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना है :

- (A) ₹200 प्रतिदिन
- (B) ₹300 प्रतिदिन
- (C) ₹100 प्रतिदिन
- (D) ₹500 प्रतिदिन

42. निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकतम जुर्माना है :

- (A) ₹ 5000
- (B) ₹ 10000
- (C) ₹ 15000
- (D) ₹ 25000

43. The benefit of the composition scheme is applicable, if the supply is :
- (A) Intra-state
(B) Inter-state
(C) Both intra-state and inter-state
(D) None of these
44. Invoice-wise details of supplies made by Taxable person are filed in :
- (A) GSTR-1
(B) GSTR-2
(C) GSTR-3
(D) All of the above
45. GST returns are to be filed :
- (A) Manually
(B) Electronically
(C) (A) or (B)
(D) (A) and (B) both
43. संयुक्त योजना का लाभ मिलता है, यदि आपूर्ति :
- (A) राज्य के अन्दर की जाती है
(B) राज्य के बाहर की जाती है
(C) राज्य के अन्दर व बाहर दोनों जगह की जाती है
(D) इनमें से कोई नहीं
44. कराधीन व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का चालान-वार विवरण दर्ज किया जाता है :
- (A) जी०एस०टी०आर०-1
(B) जी०एस०टी०आर०-2
(C) जी०एस०टी०आर०-3
(D) ऊपर के सभी
45. जी०एस०टी० रिटर्न दाखिल किया जाना है :
- (A) मैनुअल
(B) इलेक्ट्रॉनिक रूप से
(C) (A) अथवा (B)
(D) (A) और (B) दोनों

46. When is a registered person required to furnish his annual return ?

- (A) On or before 31st day of March at the end of financial year
- (B) On or before 30th day of September following the end of financial year
- (C) On or before 31st day of December following the end of financial year
- (D) On or before 1st day of December following the end of financial year

47. What is the validity of the registration certificate ?

- (A) One year
- (B) No such validity
- (C) Valid till it is cancelled
- (D) Five years

48. A certificate of registration shall be issued by the proper officer in form :

- (A) GST REG - 02
- (B) GST REG - 03
- (C) GST REG - 05
- (D) GST REG - 06

46. एक पंजीकृत व्यक्ति को अपना वार्षिक रिटर्न कब प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

- (A) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च को या उससे पहले
- (B) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितम्बर के 30वें दिन या उससे पहले
- (C) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसम्बर को या उससे पहले
- (D) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 01 दिसम्बर को या उससे पहले

47. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता क्या है ?

- (A) एक वर्ष
- (B) ऐसी कोई वैधता नहीं
- (C) रद्द होने तक वैध है
- (D) पाँच साल

48. पंजीकरण का प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :

- (A) जी०एस०टी० आर०इ०जी०-02
- (B) जी०एस०टी० आर०इ०जी०-03
- (C) जी०एस०टी० आर०इ०जी०-05
- (D) जी०एस०टी० आर०इ०जी०-06

49. Input Tax credit as credited in Electronic credit ledger can be utilized for :

- (A) Payment of Interest
- (B) Payment of Penalty
- (C) Payment of Fine
- (D) Payment of Taxes

50. IGST is payable when the supply is :

- (A) Interstate
- (B) Intra-state
- (C) Intra -UT
- (D) All of the above

49. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है :

- (A) ब्याज का भुगतान
- (B) अर्थदण्ड का भुगतान
- (C) जुर्माने का भुगतान
- (D) करों का भुगतान

50. _____ आपूर्ति होने पर IGST देय होता है :

- (A) अंतर्राज्यीय
- (B) अंतराज्यीय
- (C) अन्तर केन्द्र शासित प्रदेश
- (D) उपरोक्त सभी
